

नकली नोट के साथ तीन गिरफ्तार

Author: Jagran Publish Date: Wed, 30 Mar 2022 10:48 PM (IST) Updated Date: Wed, 30 Mar 2022 10:48 PM (IST)



बिजनौर, जागरण टीम। नजीबाबाद पुलिस ने नकली नोट के साथ तीन शातिरों को दबोचा है। इनके पास से 58 हजार रुपये मिले हैं, जिनमें 100 के 525 और 500 रुपये के 11 नकली नोट हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उनके पास बरेली से नकली नोट आते थे। उनका एक साथी अभी भी फरार है। एसपी डा. धर्मवीर सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि पुलिस ने नजीबाबाद-कोटद्वार रोड स्थित दिनेश यादव की दुकान के पास से कयूम निवासी मोहल्ला असालतपुर जिला मुरादाबाद, स्योहारा के कृष्णारामपुर निवासी वरुण और कौशल को गिरफ्तार किया। इनके पास से 58 हजार रुपये के नकली नोट मिले हैं। तीनों दोस्त हैं। इनका एक साथी बरेली जिले के थाना शीशगढ़ के गांव बरेली निवासी पवन सिंह है, जो उन्हें नकली नोट उपलब्ध कराता है और सभी मिलकर बाजार में नकली नोट चलाते हैं।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bijnor-three-arrested-with-fake-notes-22585198.html>